



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6—फरवरी 12, 2010 (माघ 17, 1931)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2010 (MAGHA 17, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. डीपी/पर्स-1/2010/198/3/59/2009--राष्ट्रपति, श्री आर. के. टण्डन, भा.पु.सेवा (मध्य प्रदेश : 1988) को 31.12.2009 के पूर्वाह्न से 16.04.2012 तक, या अगले आदेश होने तक, मैं से जो पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. जे. एम. गिलानी  
उप-निदेशक (प्रशासन)

सं. डीपी/पर्स-1/2010/199/3/13/2005--श्री आर. एस. धनखड़ ने अधिवर्षिता की आयु होने पर 31.12.2009 के अपराह्न से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एस. जे. एम. गिलानी  
उप-निदेशक (प्रशासन)

सं. डीपी/पर्स-1/2010/200/3/59/2009--राष्ट्रपति, श्री प्रबोध कुमार, भा.पु.सेवा (पंजाब : 1988) को 12.01.2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, मैं से जो पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. जे. एम. गिलानी  
उप-निदेशक (प्रशासन)

सं. डीपी/पर्स-1/2010/201/3/58/2009--राष्ट्रपति, श्री अशोक तिवारी, भा.पु.सेवा (हिमाचल प्रदेश : 1993) को भा.पु.सेवा अवधि नीति, 2000 के अनुसरण में 24.12.2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. जे. एम. गिलानी  
उप-निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 21 जनवरी 2010

सं. डीपी/पर्स-1/2010/253/3/60/2009-पर्स-I--राष्ट्रपति, श्री केशव कुमार, भा.पु.सेवा (गुजरात : 1986) को 05.01.2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. जे. एम. गिलानी  
उप-निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 20 जनवरी 2010

सं. 2/3/09-प्रशासन/69616--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री गुलाब चन्द्र राय, आई. टेली एस (93) को आयोग में निदेशक के पद पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- में ग्रेड वेतन 8,700/- के साथ केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 01.01.2010 (अपराह्न) से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

सुरजीत सिंह  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. ओ.दो. 3625/2009-कार्मिक--भारत सरकार ने श्री राकेश जरुहर, भा.पु.से. (जेएच-70) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान 67,000--79,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29.12.2011 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, उक्त अधिकारी ने अपर महानिदेशक, के.रि.पु. बल का कार्यभार दिनांक 09.12.2009 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन  
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 13 जनवरी 2010

सं. ए.छः-1/2010-कार्मिक (स.कमा.)--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600--39,000/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में सहायक कमांडेण्ट के पद पर जल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	रोल नम्बर	अधिकारी का नाम	रिपोर्ट करने की तिथि
1	2	3	4
		(सर्वश्री)	
1.	036080	नवनीत कुमार	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
2.	022592	दिलबाग सिंह	05.12.2009 (अपराह्न)

1	2	3	4
3.	009322	भूपेन्द्र कुमार सिंह	05.12.2009 (अपराह्न)
4.	071373	नरेन्द्र सिंह	08.12.2009 (अपराह्न)
5.	025490	गौरव शर्मा	05.12.2009 (अपराह्न)
6.	041974	अजय कुमार	05.12.2009 (अपराह्न)
7.	002963	जितेन्द्र सिंह	05.12.2009 (अपराह्न)
8.	053003	कफील अहमद	04.12.2009 (पूर्वाह्न)
9.	018163	पूरन मल गुर्जर	04.12.2009 (अपराह्न)
10.	015915	महेन्द्र कुमार मिश्रा	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
11.	042878	पवन जोशी	04.12.2009 (अपराह्न)
12.	046218	विकाश श्रीवास्तव	04.12.2009 (अपराह्न)
13.	053913	प्रमोद कुमार सिंह	04.12.2009 (अपराह्न)
14.	056299	विकाश कुमार	04.12.2009 (अपराह्न)
15.	059279	अजय कुमार सिंह	04.12.2009 (अपराह्न)
16.	018476	नीरज कुमार झा	04.12.2009 (अपराह्न)
17.	008079	अमित कुमार	24.12.2009 (पूर्वाह्न)
18.	034382	उगमा राम	08.12.2009 (पूर्वाह्न)
19.	044744	अंकिता अग्रवाल	05.12.2009 (अपराह्न)
20.	012732	रंजीत कुमार महतो	21.12.2009 (अपराह्न)
21.	004164	निर्भय कुमार	04.12.2009 (अपराह्न)
22.	000406	प्रकाश सिंह	05.12.2009 (अपराह्न)
23.	031112	बदरी लाल जाट	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
24.	029480	सुधाकर दुबे	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
25.	053312	अखिलेश कुमार चौबे	05.12.2009 (अपराह्न)
26.	006872	प्रवीन कुमार	06.12.2009 (पूर्वाह्न)
27.	029689	दिवेश कुमार मिश्रा	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
28.	049830	प्रिय रंजन गुप्ता	04.12.2009 (अपराह्न)
29.	049470	हिमांशु बडौला	11.12.2009 (पूर्वाह्न)
30.	061918	विक्रान्त कुमार	04.12.2009 (अपराह्न)
31.	047964	अमित भास्कर	03.12.2009 (पूर्वाह्न)
32.	063219	अजीत कुमार	04.12.2009 (अपराह्न)
33.	007747	अमित कुमार	05.12.2009 (अपराह्न)
34.	020570	नरेन्द्र कुमार	05.12.2009 (अपराह्न)
35.	042139	सन्दीप कुमार शिवहारे	05.12.2009 (पूर्वाह्न)
36.	006260	प्रकाश सिंह	05.12.2009 (अपराह्न)

1	2	3	4
37.	047313	धमेन्द्र कुमार यादव	05.12.2009 (अपराह)
38.	027761	इन्द्रवेश	04.12.2009 (पूर्वाह)
39.	000944	मुकेश कुमार कसाना	07.12.2009 (पूर्वाह)
40.	065591	थंगजाम जमेश कुकमीथी	05.12.2009 (पूर्वाह)
41.	009830	प्रतिभा यादव	05.12.2009 (अपराह)
42.	054835	फिरोज अहमद	04.12.2009 (अपराह)
43.	011296	राजू कुमार	04.12.2009 (पूर्वाह)
44.	022277	मोईरंगथेम संतोष सिंह	05.12.2009 (पूर्वाह)
45.	005126	बनमाला रानी	04.12.2009 (अपराह)
46.	054234	थोंगलेनलाल हाओकिप	04.12.2009 (अपराह)
47.	053151	किशन सलम	04.12.2009 (अपराह)
48.	003277	संजय एम. वंगलार	05.12.2009 (पूर्वाह)
49.	079541	हेयीलुंग नसारंगबे	05.12.2009 (अपराह)
50.	067260	हिमांशु तंवर	04.12.2009 (पूर्वाह)
51.	033685	सुरिन्द्र पाल	11.12.2009 (पूर्वाह)
52.	058499	कुल प्रकाश सिद्धार्थ	05.12.2009 (अपराह)
53.	070325	भवानी सिंह मीणा	04.12.2009 (अपराह)
54.	021260	वरुण कुमार	05.12.2009 (अपराह)
55.	064137	प्रमोद कुमार मीणा	04.12.2009 (अपराह)
56.	023679	मनोज कुमार यादव	05.12.2009 (अपराह)

2. इन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी कादरपुर (गुड़गांव) में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दी है इनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

### भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. प्रशा.-I का.आ.सं.-334--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) इस कार्यालय के श्री रतनीश महाजन, लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 15,600—39,100/- के वेतन बैंड-3, जिसमें रुपये 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, दिनांक 04.01.2010 (पूर्वाह) से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I का.आ. सं.-335--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 15,600—39,100/- के वेतन बैंड-3, जिसमें रुपये 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह) से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कर्मचारी कोड सं.
(सर्वश्री)		
1.	श्रीमती पुष्पा मखीजा	0604
2.	राजीव कुमार	0608
3.	राजेश छाबड़ा	0735
4.	मुकेश राज यादव	0748
5.	महेश चन्द्र शर्मा	0773
6.	श्री विकास आहूजा	0787
7.	श्रीमती चन्द्रप्रभा	0801
8.	श्रीमती वर्षा तलवार	0835
9.	रवि कथूरिया	0900
10.	ए. एस. विदी	0928

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I का.आ. सं.-341--इस कार्यालय के श्री मलखान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रुपये 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.01.2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 15.01.1950 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 03.06.1972 है।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I का.आ.सं.-342--इस कार्यालय के श्री गुलशन राय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रुपये 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.01.2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 13.01.1950 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 17.10.1969 है।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I का.आ.सं.-343--इस कार्यालय के श्री राजेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.01.2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 17.01.1950 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 18.08.1972 है।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड का कार्यालय

राँची-834002, दिनांक 22 जनवरी 2010

सं. स्था. ले/प्रशा-1/स्था./प्रोन्नति ले.प.अ./1242-1243--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड, राँची ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके सामने वर्णित तिथि से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में संपुष्टि दी है :--

क्रम नाम सं.	संपुष्टि की तिथि
1. श्री अमित कुमार	11.07.2008
2. सुश्री कुमारी सुचित्रा	04.07.2008
3. श्री दिलीप कुमार	19.07.2008
4. सुश्री अर्चना निगम	21.09.2008
5. श्री आशीष पाण्डेय	04.06.2009
6. सुश्री नमिता कुमारी	04.06.2009
7. श्री विश्वजीत मण्डल	04.06.2009
8. श्रीमती रिचा रागिनी	04.06.2009
9. श्री संजीव कुमार शर्मा	04.06.2009
10. श्रीमती दीपशिखा	04.06.2009
11. श्री बसंत कुमार	04.06.2009
12. श्री पुनीत कुजूर	04.06.2009

आर. के. अग्रवाल  
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. स्था. ले/प्रशा-1/स्था./प्रोन्नति व.ले.प.अ./1244-1245--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड, राँची ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह) से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी के पद

पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है :--

क्रम सं.	नाम	प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री हेमन्त कुमार	01.01.2010 (पूर्वाह)
2.	श्री रॉबर्ट प्रदीप सांगा	01.01.2010 (पूर्वाह)
3.	श्री अजय कुमार सिंह	01.01.2010 (पूर्वाह)

आर. के. अग्रवाल  
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. स्था. ले/प्रशा-1/स्था./प्रोन्नति ले.प.अ./1246-1247--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड, राँची ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह) से वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है :--

क्रम सं.	नाम	प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री योगेश कुमार झा	01.01.2010 (पूर्वाह)
2.	श्री विकास कुमार	01.01.2010 (पूर्वाह)

आर. के. अग्रवाल  
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. स्था. ले/प्रशा-1/स्था./प्रोन्नति स.ले.प.अ./1248-1249--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड, राँची ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के श्री बृज मणि भूषण को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह) से सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है।

आर. के. अग्रवाल  
स्थानीय लेखा परीक्षक

महालेखा (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. का. स्था. (ह व रो)/ई-IVपै./146--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती एम. विजयलक्ष्मी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.12.2009 अप. (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती पी. जया	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	31.12.2009 अप. (अधिवर्षिता)

के. विजयकुमारन  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

## महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) आंध्रप्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 29 दिसम्बर 2009

सं. प्रशा.-1/ले.व ह./1/4-39/2009-10--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के लिए रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के संदर्भ वेतन के साथ उनके नाम के सम्मुख बतायी गई तिथियों से सहर्ष पदोन्नत किया है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सी. मुरलीधर	01.01.2010
2.	श्रीमती पी. वीना	01.01.2010
3.	श्री एस. वेंकट रेड्डी	01.01.2010
4.	श्री के. प्रताप	01.01.2010

2. यह पदोन्नतियों के आदेश उनके वरिष्ठों के नामों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किए जाते हैं।

ई. श्रीनिवासन  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

## रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 01 जनवरी 2010

सं. प्रशा.-1/1171/र.ले. अपर म. नि./2009-10--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी श्री अभिजीत बसु को उक्त सेवा के रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक [रुपये 75,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) 80,000/-] के ग्रेड में 01 जनवरी, 2010 पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुभाष मंडल  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

दिनांक 20 जनवरी 2010

सं. प्रशा.-1/1218/पी पी एस/2009-10--राष्ट्रपति, सुश्री मीरा रघुनाथ लटकर, वरिष्ठ निजी सचिव समूह "ख" राजपत्रित (15,600--39,100/- रुपए) (ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) को नियमित आधार पर रक्षा लेखा विभाग में प्रधान निजी सचिव (समूह "क") (15,600--39,100/- रुपए) (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में 01 जनवरी, 2010 से तथा आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुभाष मंडल  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 20 जनवरी 2010

संदर्भ: पीडी/7(11)/2009/भर्ती-IV/(एसओ/जी)/876--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड एफ, पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजिनियर ग्रेड जी के पद पर पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, श्री अनिलकुमार तैप्पोक्कत विजयन, क्रम संख्या 32, श्री पि. एस. आर. कृष्णा, क्रम संख्या 76 एवं श्री मनहरणलाल साहू, क्रम संख्या 79 जिनकी नियुक्ति तिथियाँ क्रमशः 13 जुलाई, 2009, 15 जुलाई, 2009 एवं 6 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से हैं को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	2
1.	श्री गिरीश विद्याधर शेणई-लांजेकर
2.	श्री तापस कुमार घोष
3.	श्री विजयसिंह सिकरवार
4.	श्री जि. आदि रेड्डी
5.	श्री अरविंद कुमार मिश्र
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार
7.	डा. दिलीप कुमार कौल
8.	श्री संजय कुमार पटनायक
9.	श्री अरवपल्लि श्रीनिवास राव
10.	श्री बेचई मौर्या
11.	श्री जीजी जोसफ
12.	श्री कुलकर्णी जितेंद्र जयंत
13.	श्री इवटूर शंकर राव
14.	श्री केतन दिलीप लागू
15.	श्री एम. पद्मनाभन
16.	श्री शारन्गाधरन पी.वी.
17.	डा. प्रभाकरविलासम माधवन बालगोपाल पिल्लै
18.	डा. संजय कुमार झा
19.	डा. ताराशंकर माहाता
20.	श्री कपिलदेव प्रसाद अम्बष्ट
21.	डा. (श्रीमती) अनिता विनय टोपकर
22.	श्री बोरकर सुहास प्रभाकर
23.	श्रीमती लालसरे माधुरी दिलीप
24.	डा. पटिन्हारे वारियम अच्युतन
25.	श्री श्रीकुमार जी.
26.	श्री यरबर्ल चलपति राव

1	2
27.	डा. प्रसाद एस. वारियर
28.	श्री महेश प्रसाद जैन
29.	श्री के. नारायणन कुट्टी
30.	श्री मुरलीधर दत्तात्रय देशपांडे
31.	डा. वैद्यनादन कण्णन
32.	श्री अनिलकुमार तैप्पोक्कत विजयन
33.	श्री असीम सिंह रावत
34.	श्री येदू श्रीनिवास
35.	डा. (श्रीमती) स्नेहल उदय नाडकर्णी
36.	डा. शशिकांत लक्ष्मण वाडेकर
37.	डा. पेन्ना सुप्रसन्ना
38.	डा. ललित मोहन पंत
39.	श्री जयनारायणन के.
40.	श्री पल्लव शर्मा
41.	श्रीमती रजनी राधाकृष्ण मेनन
42.	श्री शशांक शेखर झा
43.	श्री इथिक्कल कोचुनी मुरली
44.	श्री सुधीर कुमार निचित
45.	डा. दिलीप गणपतराव फल
46.	डा. मधुसूदन कृष्णाजी भिडे
47.	डा. मल्लेकाव सारंगपाणि मुरली
48.	श्री आदर्श कुमार दुरेजा
49.	श्री निरूपम दास
50.	श्री सुनील कुमार सिन्हा
51.	श्रीमती जे.अपर्णा
52.	श्रीमती जयश्री श्रीराम
53.	श्री सुधीर मिश्रा
54.	श्री अंकुर अग्रवाल
55.	श्री कोटिकन्यादानम रामस्वामि सुंदर राघवन
56.	श्री राघवेंद्र गंगूर
57.	श्री एस. जगन्नाथ राव
58.	श्री रनर घोष
59.	श्री शिबू थॉमस
60.	डा. हरि प्रसाद उपाध्याय
61.	श्री प्रहलाद वासुदेव जोशी
62.	श्री उदय शामराव कुलकर्णी
63.	श्री विष्णु वर्मा
64.	डा. तापस बंदोपाध्याय
65.	श्री राजवीर सिंह
66.	श्री अनंता जोशी

1	2
67.	श्री बि. एस. मंजुनाथ
68.	श्री ए. विजय कुमार
69.	श्री भास्कर घनश्याम नाईक
70.	डा. (श्रीमती) सुनंदा कृष्णकुमार
71.	डा. आद्या प्रसाद मिश्र
72.	डा. बलभद्रपात्रुनी नाग राजा सेखर
73.	डा. दिनेश वेंकटेश उडुपा
74.	डा. शम्भुनाथ झा
75.	डा. अमिताभ दास
76.	श्री पि. एस. आर. कृष्णा
77.	डा. चन्द्र नाथ पात्रा
78.	श्री लक्ष्मीनारायणन सुब्रम्हण्यम अशोककुमार
79.	श्री मनहरणलाल साहू
80.	श्री रमेश बापूरावजी इंगोले
81.	श्री ओगिराल नटराजु
82.	श्रीमती मंजिरी मिलिंद पांडे

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400 085, दिनांक 20 जनवरी 2010

संदर्भ: पीडी/6(5)/2009-भर्ती-III/2010/919--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती उषा वेंकटेश नल्ला, सहायक लेखाकार, आरएमपी, मैसूर को दिनांक 07.12.2009 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/- में आरएमपी, मैसूर में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 16/2(2)/2009-एसयूएस/566--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.07.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक इस विभाग के सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन (रु.)
1.	डॉ. पी. भट्टाचार्य	वैज्ञा. अधिकारी/ एफ	वैज्ञा. अधिकारी/ जी	37400-67000/-	8900/-
2.	श्री ए. वेंकटरामन ई	वैज्ञा. अधिकारी/ ई	वैज्ञा. अधिकारी/ एफ	37400-67000/-	8700/-

ए. सुकुमारन  
अवर सचिव

## परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700 064, दिनांक 7 जनवरी 2010

सं.वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2009/39--राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 37400--67000/- + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 1, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

ए. बनर्जी

प्रशासनिक अधिकारी-III

## राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 19 जनवरी 2010

सं. आरआरके/2007-प्रशा/आर-805(ए)/99--राष्ट्रपति, ने डा. अवनीश कुमार शर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी/ई को राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में दिनांक 31.12.2009 को पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/-) के पद पर नियुक्त किया है।

आर.पी.आचार्य

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

## नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 2 जनवरी 2010

सं. नाईस/काप्रभ. I/04/06--दिनांक 08.12.2009 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/1111 के क्रम में श्री एम. के.सत्यनारायणा, वरिष्ठ लिपिक को रु. 9300--34,800/- के पे बैंड में, रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.01.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव

प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ. I/04/06/14--दिनांक 08.12.2009 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/1110 के क्रम में, श्री टी. वरहाल राजू, वरिष्ठ लिपिक को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9300--34800/- के पे बैंड में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.01.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव

प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. नाईस/काप्रभ. I/04/06/17--दिनांक 08.12.2009 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/1109 के क्रम में श्री आर. गेमा नायक, प्रवर श्रेणी लिपिक को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9300--34800/-

के पे बैंड-2 में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 09.02.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव

प्रशासनिक अधिकारी-III

## परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 8 दिसंबर 2009

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन.--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री के. प्रभाकर राव	सहायक लेखा अधिकारी	31/08/009 अपराह्न	अधिवर्षिता
2.	श्री सी. के. रामचंद्रन	मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी	30/09/2009 अपराह्न	अधिवर्षिता
3.	श्रीमति सविता रोहल्ली	वैज्ञानिक अधिकारी-जी	31/10/2009 अपराह्न	अधिवर्षिता
4.	श्री के. बी. मोहंती	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	30/11/2009 अपराह्न	अधिवर्षिता
5.	श्री आर. एन. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी-ई	31/12/2009 अपराह्न	अधिवर्षिता

पी. मोहन बाबू

मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इन्टीग्रेटेड प्रीमियम फूड्स एण्ड स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. 560 (3) एम सी ए/आर ओ सी/एनाकुलम/560/2010/00004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्टीग्रेटेड प्रीमियम फूड्स एण्ड स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ

कम्पनी पंजीयक

केरल एण्ड लक्षद्वीप

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्रीपदम फाईनांसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 7427--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीपदम

फाईनांसिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ऐटिबिजि सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 18659--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐटिबिजि सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दिपा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 8681--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिपा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जयराज पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 15 जनवरी 2010

सं. 13828--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जयराज पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, पश्चिम बंगाल

कोलकाता, दिनांक 14 जनवरी 2010

सं. आरओसी/प.ब./आईपीसी/560(एस.एम.)/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में निम्नलिखित पाँच कम्पनियों के नाम भूलवश प्रकाशन के लिए भेजे गए थे तथा जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खण्ड-1 में प्रकाशित किए गए।

उक्त निम्नलिखित कम्पनियों के नाम जो कि सभी सांविधिक दस्तावेजों को नियमित रूप से फाइल करती आ रही हैं, को अधिनियम की धारा 560(5) के अन्तर्गत नहीं काटा जाना चाहिए था। अतः इन सभी कम्पनियों के नाम यथास्थान पर इस तरह रखा जाए कि उन्हें कभी भी नहीं काटा गया हो :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	21-63914	मैसर्स खैतान कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	21-70984	मैसर्स कमालपुर मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	21-73968	मैसर्स तिरुपति मिहिका ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	21-31863	मैसर्स होल्डिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
5.	21-88155	मैसर्स अग्रवाल निकेत प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. आर. ओ. सी./560(3)/5074--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-003161	मैसर्स भर्गव फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-008436	मैसर्स उएसीस एयर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-008768	मैसर्स नीममाधव कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड

वी. महान्ति  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

चेन्नै, दिनांक 18 जनवरी 2010

सं. 14576 से 58190 तक/560(5)/स्यो मोठो-2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	14576	तन्जावूर प्लास्टीक्स प्रैवेट लिमिटेड
2.	14875	सप्तगिरी हौसिंग फैनान्स लिमिटेड
3.	13271	एस फिनिशु लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड
4.	13924	नवनीया मिल्स लिमिटेड
5.	14319	लक्ष्मी पीनेट्स एण्ड ओईल्स प्रैवेट लिमिटेड
6.	14351	गोपीकन्ना चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
7.	14362	सी कथीन फिशरीस प्रैवेट लिमिटेड
8.	14365	जे डी एस चिट् फण्ड प्रैवेट लिमिटेड
9.	14369	ज्योती एलक्ट्रीकल्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड
10.	14372	जीवन फैनान्स एण्ड ग्यारेन्टी (इण्डिया) लिमिटेड
11.	14375	लेडेन कपासीटेर्स प्रैवेट लिमिटेड
12.	14389	सलाबा प्रिन्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
13.	14391	एलील् फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
14.	14394	इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर रोबोटीक्स प्रैवेट लिमिटेड
15.	14401	रैस कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
16.	14414	त्याही फिशरीस प्रैवेट लिमिटेड
17.	14428	डीजे फाम्स & अलैड प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
18.	14429	इन्डीटेल हान्डीक्यूप प्रैवेट लिमिटेड
19.	14436	मरीलुक सीफुड्स प्रैवेट लिमिटेड
20.	14438	बे पाक् पालीमर्स प्रैवेट लिमिटेड
21.	14442	डस्क अप्पेरेल्स प्रैवेट लिमिटेड
22.	14443	श्री विनायका पवरलूमस प्रैवेट लिमिटेड
23.	14448	नव दुरगै टेक्सटैल इन्डस्ट्री प्रैवेट लिमिटेड
24.	14456	गुलेच्चा गारमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
25.	14475	टाप्स कण्सल्टेन्सी एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
26.	14476	योयसिस फ़िरैट प्रैवेट लिमिटेड
27.	14477	ग्राम्ट एण्ड इकोनामिक् ट्रान्सपोर्ट्स सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
28.	14490	सदर्ण डेस्टीनेशनस प्रैवेट लिमिटेड
29.	14498	राजा कारबैड्स प्रैवेट लिमिटेड
30.	14504	भुवनेश अग्रो मिल्स प्रैवेट लिमिटेड
31.	14517	एजुकेशनल् इलक्ट्रॉनिक्स प्रैवेट लिमिटेड
32.	14519	राणी मँगमाल टेक्सटैल्स प्रैवेट लिमिटेड
33.	14543	एसार कास्टींग्स प्रैवेट लिमिटेड
34.	14544	राम्णी फैनानशियल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
35.	14546	के आर एस केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
36.	14551	नवीगेटर सी फुड ( इण्डिया ) प्रैवेट लिमिटेड
37.	14556	कुरिन्ची पेपर एण्ड बोर्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
38.	14559	स्टालीयन वुड इन्डस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
39.	14560	एफ एम् पेकेजीस प्रैवेट लिमिटेड
40.	14561	परीक्षीद् ट्रोलर्स प्रैवेट लिमिटेड
41.	14564	ओलिम्पस ट्रेडिंग & कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
42.	14579	गुप्पेज गार्को सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
43.	14607	सदर्ण आठो ग्लास एण्ड अलैड इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
44.	14629	वेल्डन फिशरीस प्रैवेट लिमिटेड
45.	14632	कान्सडेन्स केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
46.	14640	आर्या सिस्टेम्स & फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
47.	14645	गुरु पप्लीकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
48.	14659	कृष् अप्लैयेन्सेस प्रैवेट लिमिटेड
49.	14661	सदर्ण सेल्लुलोस प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
50.	14667	पैनियर शूस प्रैवेट लिमिटेड
51.	14676	वेगवाहिणी इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
52.	14683	गान्डी फरस्ट कण्फेक्शनेरी प्रैवेट लिमिटेड
53.	14688	सलोमी फिशरी प्रैवेट लिमिटेड
54.	14694	दाना रेखा लिसिंग प्रैवेट लिमिटेड
55.	14696	अरुल् अण्णै फिशेरिस प्रैवेट लिमिटेड
56.	14699	भरदेजीटी मरैन लैन प्रैवेट लिमिटेड
57.	14701	देव जेनेरल फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
58.	14987	अरक्कोणम् अलुमिनियम् प्रैवेट लिमिटेड
59.	14997	जेजीके लेदर एण्ड अलैड प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
60.	19517	स्टोनवेल ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
61.	24232	नागमणी फैनान्स एण्ड लिसिंग कम्पनी लिमिटेड
62.	25520	वीडुरटी एक्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेड
63.	25562	पान्डरिस फैनान्स लिमिटेड
64.	25648	महादेवी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
65.	25790	सेफ मेडीटेक् प्रोडेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
66.	27213	अछया बेनिफिट फैनान्स लिमिटेड
67.	27795	माम्मल्लन् बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
68.	29547	अदेशवरा फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
69.	30176	गुड़ एयीड बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
70.	30177	सुप्रा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
71.	30178	फारचून् बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
72.	30180	सुबीक्खा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
73.	30756	सुप्रा सेक्युरिटीस लिमिटेड
74.	30837	वैलांकन्नी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
75.	31316	सुप्रा स्पीन्काट लिमिटेड
76.	32225	संगमल्ली बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
77.	32885	कासी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
78.	33414	इण्डियन हेरिडेज होम्स लिमिटेड
79.	33422	सिक्नेचर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
80.	33769	अनील् ट्रान्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड
81.	34923	अल्लरजा हौसिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
82.	35060	जेया वरशिनी प्रोपर्टिस लिमिटेड
83.	35215	एम.जे. हौसिंग प्रैवेट लिमिटेड
84.	35277	अक्वाटिक्स भारकेटिंग सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
85.	35392	आर्या नल सास्वता बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
86.	35464	एन्वीरान केयर बयोटेक् लिमिटेड
87.	35660	कम्पन् बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
88.	36352	अकासिया अग्रो टेक् प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
89.	37385	अव्वाल् ट्रेडिंग असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
90.	40000	अन्टला फिलैट सरवीसेस् प्रैवेट लिमिटेड
91.	41488	अनुषा मल्टीमीडिया सरवीसेस् प्रैवेट लिमिटेड
92.	41570	आदिकेशव फैनान्शियल सरवीसेस् प्रैवेट लिमिटेड
93.	42062	अक्सिस् मेडिकल टेक्नोलॉजिस प्रैवेट लिमिटेड
94.	44109	अप्सलूट ई-डेटा काम् प्रैवेट लिमिटेड
95.	44807	साफ् वाली इन्फोटेक् लिमिटेड
96.	47284	हन्सा मल्टीलेयर पैप्स लिमिटेड
97.	48201	अक्सेस् डिटेक्टीव्स प्रैवेट लिमिटेड
98.	49975	अन्नलक्ष्मी स्वीट्स एण्ड स्पैसेस् प्रैवेट लिमिटेड
99.	51229	एटीएक्स इन्फो टेक्नोलॉजिस प्रैवेट लिमिटेड
100.	52477	अभिरा ग्रेसिरीस एक्सपोर्ट प्रैवेट लिमिटेड
101.	52540	ए.के. प्रोजेक्ट्स & कंसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
102.	55672	महाविषनु म्युसिक रेगाड्स प्रैवेट लिमिटेड
103.	58190	अन्या कम्यूनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड

एम. कण्णन

सहायक कम्पनी पंजीयक

तमिलनाडु, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

## कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 21 जनवरी 2010

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/टीए-एमएम/560(3)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नं०	कंपनी का नाम
1	37269	सोर्स फ्राम डेकन प्राइ0लिमि0
2	29146	एम.एच. साफ्टवेयर सॉल्युशंस प्राइ0लिमि0
3	33746	श्री राघवेन्द्र कार्बन्स प्राइ0लिमि0
4	15592	राइगे खन्ना प्रापर्टीस एंड हास्पीटैलिटी सर्विसेस लिमि0
5	18603	शमानुर इस्टेट प्राइ0लिमि0
6	44834	जेफिर लाइफ साइसेस टेक्नोलॉजिस प्राइ0लिमि0
7	40668	ग्लोबल आउटसोर्स सर्विसेस प्राइ0लिमि0
8	34201	बेक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेस प्राइ0लिमि0
9	38066	ब्रिजटेक सर्विसेस प्राइ0लिमि0
10	32173	एप्रोपोस इन्फोटेक प्राइ0लिमि0
11	30875	एजुकेशनल अपारचुनेटीस इंडिया प्राइ0लिमि0
12	41441	प्लुस्मो साफ्टवेयर प्राइ0लिमि0
13	38369	एडीसी टेलिकम्युनिकेशंस इंडिया प्राइ0लिमि0
14	8267	कर्नाटका प्लॉस्टोनिकॉम प्राइ0लिमि0
15	36437	राचेल इंजिनियरिंग प्राइ0लिमि0

गीता महालक्ष्मी के.  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 19th January 2010

No. DP Pers.-I/2010/198/3/59/2009—The President is pleased to appoint Sh. R. K. Tandon, IPS (MP : 1988) as Joint Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 31.12.2009 for a period upto 16.04.2012 or till further orders, whichever is earlier.

S. J. M. GILLANI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. DP Pers.-I/2010/199/3/13/2005—Shri R. S. Dhankhar relinquished charge of the post of Senior Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.12.2009.

S. J. M. GILLANI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. DP Pers.-I/2010/200/3/59/2009—The President is pleased to appoint Sh. Prabodh Kumar, IPS (PB : 1988) as Joint Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 12.01.2010 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S. J. M. GILLANI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. DP Pers.-I/2010/201/3/58/2009—The President is pleased to appoint Sh. Ashok Tiwari, IPS (HP : 1993) as Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 24.12.2009 for a period of five years in accordance with IPS Tenure Policy, 2000.

S. J. M. GILLANI  
Dy. Dir. (Admn.)

The 21st January 2010

No. DP Pers.-I/2010/253/3/60/2009—The President is pleased to appoint Sh. Keshav Kumar, IPS (GJ : 1986) as Joint Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 05.01.2010 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S. J. M. GILLANI  
Dy. Dir. (Admn.)

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 20th January 2010

No. 2/3/09-Admn./69616—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Sh. Gulab Chandra Rai, I. Tele. S(93) as Director in the Commission on Central

Deputation basis in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/-, with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the afternoon of 01.01.2010 for a period of five years or till further orders whichever is earlier.

SURJIT SINGH  
Officer on Special Duty (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 11th December 2009

No. O.II.3625/2009. Pers.—The Govt. of India have appointed Sh. Rakesh Jaruhar, IPS (JH : 1976) as Additional Director General of Police in CRPF in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- from the date of assumption of charge of the post and for the period upto 29.12.2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Additional Director General of Police in CRPF in the forenoon of 09.12.2009.

T. CHANDRASEKHARAN  
DIGP (Pers.)

The 13th January 2010

No. A. VI. 1/2010-Pers (AC)—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force:—

Sl. No.	Roll No.	Name of Officer	Date of Joining
1	2	3	4
		(S/Shri)	
1.	036080	Nanveet Kumar	05.12.2009 (FN)
2.	022592	Dilbag Singh	05.12.2009 (AN)
3.	009322	Bhupender Kumar Singh	05.12.2009 (AN)
4.	071373	Narender Singh	08.12.2009 (AN)
5.	025490	Gaurav Sharma	05.12.2009 (AN)
6.	041974	Ajay Kumar	05.12.2009 (AN)
7.	002963	Jitendra Singh	05.12.2009 (AN)
8.	053003	Kafeel Ahmed	04.12.2009 (FN)
9.	018163	Pooran Mal Gurjar	04.12.2009 (AN)
10.	015915	Mahendra Kumar Mishra	05.12.2009 (FN)
11.	042878	Pawan Joshi	04.12.2009 (AN)
12.	046218	Vikash Srivastava	04.12.2009 (AN)
13.	053913	Pramod Kumar Singh	04.12.2009 (AN)

1	2	3	4
		(S./Shri)	
14.	056299	Vikas Kumar	04.12.2009 (AN)
15.	059279	Ajay Kumar Singh	04.12.2009 (AN)
16.	018476	Neeraj Kumar Jha	04.12.2009 (AN)
17.	008079	Amit Kumar	24.12.2009 (FN)
18.	034382	Ugma Ram	08.12.2009 (FN)
19.	044744	Ankita Agrawal	05.12.2009 (AN)
20.	012732	Ranjeet Kumar Mahto	21.12.2009 (AN)
21.	004164	Nirbhay Kumar	04.12.2009 (AN)
22.	000406	Prakash Singh	05.12.2009 (AN)
23.	031112	Badri Lal Jat	05.12.2009 (FN)
24.	029480	Sudhakar Dubey	05.12.2009 (FN)
25.	053312	Akhilesh Kumar Chaubey	05.12.2009 (AN)
26.	006872	Parveen Kumar	06.12.2009 (FN)
27.	029689	Divesh Kumar Mishra	05.12.2009 (FN)
28.	049830	Priya Ranjan Gupta	04.12.2009 (AN)
29.	049470	Himanshu Badola	11.12.2009 (FN)
30.	061918	Vikrant Kumar	04.12.2009 (AN)
31.	047964	Amit Bhaskar	03.12.2009 (FN)
32.	063219	Ajit Kumar	04.12.2009 (AN)
33.	007747	Amit Kumar	05.12.2009 (AN)
34.	020570	Narendra Kumar	05.12.2009 (AN)
35.	042139	Sandeep Kumar Shivhare	05.12.2009 (FN)
36.	006260	Prakash Singh	05.12.2009 (AN)
37.	047313	Dharmendra Kumar Yadav	05.12.2009 (AN)
38.	027761	Indra Vesh	04.12.2009 (FN)
39.	000944	Mukesh Kumar Kasana	07.12.2009 (FN)
40.	065591	Thangjam Jamescook Meetei	05.12.2009 (FN)
41.	009830	Pratibha Yadav	05.12.2009 (AN)
42.	054835	Feroz Ahmed	04.12.2009 (AN)
43.	011296	Raju Kumar	04.12.2009 (FN)
44.	022277	Moirangthem Santosh Singh	05.12.2009 (FN)
45.	005126	Banmala Rani	04.12.2009 (AN)

1	2	3	4
		(S./Shri)	
46.	054234	Thonglenlal Haokip	04.12.2009 (AN)
47.	053151	Kishan Salam	04.12.2009 (AN)
48.	003277	Sanjoy M Wanglar	05.12.2009 (FN)
49.	079541	Heiyilung Nsarangbe	05.12.2009 (AN)
50.	067260	Himanshu Tanwar	04.12.2009 (FN)
51.	033685	Surinder Pal	11.12.2009 (FN)
52.	058499	Kul Prakash Siddharth	05.12.2009 (AN)
53.	070325	Bhawani Singh Meena	04.12.2009 (AN)
54.	021260	Varun Kumar	05.12.2009 (AN)
55.	064137	Pramod Kumar Meena	04.12.2009 (AN)
56.	023679	Majoj Kumar Yadav	05.12.2009 (AN)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarapur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates shown against their names.

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers)

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT (CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 15th January 2010

No. Admn. I/O.O. No. 334—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Sh. Ratnish Mahajan, Audit Officer of this office to officiate as Senior Audit Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 04.01.2010 (FN) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 335—Director General of Audit, (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints the following Audit Officers of this office to officiate as Senior Audit Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.01.2010 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Emp. Code No.
1	2	3
	(S./Shri)	
1.	Smt. Pushpa Makhija	0604
2.	Rajiv Kumar	0608
3.	Rajesh Chhabra	0735



1	2	3
	(S/Shri)	
4.	Mukesh Raj Yadav	0748
5.	Maresh Chandra Sharma	0773
6.	Vikas Ahuja	0787
7.	Smt. Chandraprabha	0801
8.	Smt. Varsha Talwar	0835
9.	Ravi Kathuria	0900
10.	A. S. Viridi	0928

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 341—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Malkhan Singh, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office is retiring from Government Service on 31.01.2010 (AN).

His date of birth is 15.01.1950 and he joined Government service on 03.06.1972.

Sd/-ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 342—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Gulshan Rai, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office is retiring from Government Service on 31.01.2010 (AN).

His date of birth is 13.01.1950 and he joined Government service on 17.10.1969.

Sd/-ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 343—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Rajender Kumar, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office is retiring from Government Service on 31.01.2010 (AN).

His date of birth is 17.01.1950 and he joined Government service on 18.08.1972.

Sd/-ILLEGIBLE  
Dir. (Admn.)

#### OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), JHARKHAND

Ranchi-834002, the 22nd January 2010

No. L.A./Admn. I/Estt. I/Promo. AO/1242-1243—The Pr. Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to Confirm following Assistant Audit Officer (Probationer)s of Local Audit Wing to the cadre of Assistant

Audit Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date from which confirmed
1.	Sh. Amit Kumar	11.07.2008
2.	Ms. Kumari Suchitra	04.07.2008
3.	Sh. Dilip Kumar	19.07.2008
4.	Ms. Archana Nigam	21.09.2008
5.	Sh. Ashish Pandey	04.06.2009
6.	Ms. Namita Kumari	04.06.2009
7.	Sh. Biswajit Mondal	04.06.2009
8.	Mrs. Richa Ragini	04.06.2009
9.	Sh. Sanjeev Kr. Sharma	04.06.2009
10.	Mrs. Dipshikha	04.06.2009
11.	Sh. Basant Kumar	04.06.2009
12.	Sh. Punit Kujur	04.06.2009

R. K. AGRAWAL  
Examiner of Local Accounts

No. L.A./Admn. I/Estt. I/Promo. AO to Sr. AO/1244-1245—The Pr. Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote following Audit Officer of Local Audit Wing to officiate as Sr. Audit Officer in the same wing in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. 01.01.2010 (FN) :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. Hemant Kumar	01.01.2010 (FN)
2.	Sh. Robert Pradeep Sanga	01.01.2010 (FN)
3.	Sh. Ajay Kumar Singh	01.01.2010 (FN)

R. K. AGRAWAL  
Examiner of Local Accounts

No. L.A./Admn. I/Estt. I/Promo. AO/1246-1247—The Pr. Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote following Audit Officer of Local Audit Wing to officiate as Audit Officer in the same wing in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. 01.01.2010 (FN) :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. Yogesh Kumar Jha	01.01.2010 (FN)
2.	Sh. Vikas Kumar	01.01.2010 (FN)

R. K. AGRAWAL  
Examiner of Local Accounts

No. L.A./Admn. I/Estt. I/Promo. AAO /1248-1249—The Pr. Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote Sh. Braj Mani Bhusan, Sr. Auditor of Local Audit Wing to the cadre of Assistant Audit Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 01.01.2010 (FN).

R. K. AGRAWAL  
Examiner of Local Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 18th January 2010

No. O.E./E&C/EIVP/146—The following officials of IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. M. Vijayalekshmy	Senior Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31.12.2009 AN (Superannuation)
2.	Smt. P. Jaya	Asstt. Accounts Officer Branch Office, Thrissur	31.12.2009 AN (Superannuation)

K. VIJAYKUMARAN  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (A&E) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 29th December 2009

No. Admn. I/A&E/I/4-39/2009-10—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Accounts Officers to officiate as Sr. Accounts Officers in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as Sr. A.O.
1.	C. Muralidhar	01.01.2010 FN
2.	P. Veena	01.01.2010 FN
3.	S. Venkat Reddy	01.01.2010 FN
4.	K. Pratap	01.01.2010 FN

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

E. SRINIWASAN  
Sr. Dy. Accountant General  
(Administration)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE C. G. D. A.

Delhi Cantt-110010, the 1st January 2010

No. AN-I/1175/1/VI—President is pleased to appoint Smt. Nita Kapoor, an officer of the Indian Defence Accounts

Service, as Controller General of Defence Accounts in the Scale of Pay of Rs. 80,000/- (Fixed), with effect from 01st January, 2010 and until further orders.

SUBHAS MONDAL  
Asstt. Controller General of  
Defence Accounts (Admn.)

No. AN-I/1171/Addl. CGDA/2009-10—President is pleased to appoint Sh. Abhijit Basu, an officer of the Indian Defence Accounts Service to the Grade of Additional Controller General of Defence Accounts (Rs. 75,500- (AI@3%)-80,000/-) of that Service, with effect from the forenoon of 1st January, 2010 until further orders.

SUBHAS MONDAL  
Asstt. CGDA (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 20th January 2010

No. PD/7(11)/2009-R-IV/CSO/G/876.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'F' Pay Band Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,700/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2009, except Shri Anilkumar Thippokkath Vijayan, Sl. No. 32, Shri P.S.R. Krishna, Sl. No. 76 and Shri Manharan Lal Sahu, Sl. No. 79 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of July 13, 2009, July 15, 2009 and July 6, 2009 respectively, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer
1	2
1.	Shri Girish Vidyadhar Shenai Lanjekar
2.	Shri Tapas Kumar Ghosh
3.	Shri Vijay Singh Sikarwar
4.	Shri G. Adi Reddy
5.	Shri Arbind Kumar Mishra
6.	Shri Surendra Kumar
7.	Dr. Dileep Kumar Koul
8.	Shri Sanjay Kumar Patnaik
9.	Shri Aravapalli Shrinivas Rao
10.	Shri Beachai Maurya
11.	Shri Gigi Joseph
12.	Shri Kulkarni Jitendra Jayant

1	2
13.	Shri Ivaturi Sankara Rao
14.	Shri Ketan Dileep Lagoo
15.	Shri M. Padmanabhan
16.	Shri Sarngadharan P. V.
17.	Dr. Prabhakaravilasam Madhavan Balagopala Pillai
18.	Dr. Sanjay Kumar Jha
19.	Dr. Tarasankar Mahata
20.	Shri Kapildeo Prasad Ambastha
21.	Dr. (Smt) Anita Vinay Topkar
22.	Shri Borkar Suhas Prabhakar
23.	Smt. Lalsare Madhuri Dilip
24.	Dr. Padinhare Variam Achuthan
25.	Shri Sreekumar G
26.	Shri Yarabarla Chalapathi Rao
27.	Dr. Prasad S. Variyar
28.	Shri Mahesh Prasad Jain
29.	Shri K. Narayanan Kutty
30.	Shri Muralidhar Dattatraya Deshpande
31.	Dr. Vaidyanathan Kannan
32.	Shri Anilkumar Thippokkath Vijayan
33.	Shri Aseem Singh Rawat
34.	Shri Yeddu Srinivas
35.	Dr. (Smt) Snehal Uday Nadkarni
36.	Dr. Shashikant Laxman Wadekar
37.	Dr. Pena Suprasanna
38.	Dr. Lalit Mohan Pant
39.	Shri Jayanarayanan K.
40.	Shri Pallav Sharma
41.	Smt. Rajani Radhakrishna Menon
42.	Shri Shashank Shekhar Jha
43.	Shri Ethikkal Kochunny Murali
44.	Shri Sudhir Kumar Nichit
45.	Dr. Dilip Ganpatrao Phal
46.	Dr. Madhusudan Krishnaji Bhide
47.	Dr. Mallekav Sarangapani Murali
48.	Shri Adarsh Kumar Dureja
49.	Shri Nirupam Das

1	2
50.	Shri Sunil Kumar Sinha
51.	Smt. Janardhanan Aparna
52.	Smt. Jayashree Sriram
53.	Shri Sudhir Mishra
54.	Shri Ankur Agrawal
55.	Shri Kotikanyadanam Ramaswamy Sundara Raghavan
56.	Shri Raghavendra Gangoor
57.	Shri Singamsetty Jagannadha Rao
58.	Shri Runner Ghosh
59.	Shri Shibu Thomas
60.	Dr. Hari Prasad Upadhyaya
61.	Shri Prahlad Vasudeo Joshi
62.	Shri Uday Shamrao Kulkarni
63.	Shri Vishnu Verma
64.	Dr. Tapas Bandyopadhyay
65.	Shri Rajvir Singh
66.	Shri Ananta Joshi
67.	Shri B. S. Manjunath
68.	Shri A. Vijaya Kumar
69.	Shri Bhaskar Ghanashyam Naik
70.	Dr. (Smt) Sunanda Krishnakumar
71.	Dr. Adya Prasad Mishra
72.	Dr. Balabhadrapatruni Naga Raja Sekhar
73.	Dr. Dinesh Venkatesh Udupa
74.	Dr. Shambhu Nath Jha
75.	Dr. Amitabh Das
76.	Shri P.S.R. Krishna
77.	Dr. Chandra Nath Patra
78.	Shri Laxminarayanan Subramaniam Ashok Kumar
79.	Shri Manharan Lal Sahu
80.	Shri Ramesh Bapuraoji Ingole
81.	Shri Vogirala Nataraju
82.	Smt. Manjiri Milind Pande

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 15th January 2010

No. 16/2(2)/2009-SUS/566.—The President is pleased to appoint the following officers in General Services Organisation, Kalpakkam, a constituent unit of this Department, on their promotion to the grade mentioned against each with effect from 01-07-2009 (FN) until further orders :—

Sr. No.	Name	Present Grade	Grade on promotion	Pay Band Rs.	Grade Pay Rs.
1.	Dr. P. Bhattacharjee	SO/F	SO/G	37,400—67,000/-	8,900/-
2.	Sh. A. Venkatraman	SO/E	SO/F	37,400—67,000/-	8,700/-

A. SUKUMARAN

Under Secy.

Mumbai-400085, the 20th January 2010

No. PD/6(5)/2009-R-III/2010/919.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Usha Venkatesh Nalla, Assistant Accountant, RMP, Mysore to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- in RMP, Mysore with effect from the forenoon of 7th December, 2009 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

## VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 7th January 2010

No. VECC/Prom (Aug)/2009/39.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (G) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,900/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2009 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present post	P.B. + G.P. Rs.
1.	Dr. (Smt.) C. Bhattacharya	Scientific Officer (F)	37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 8,700/-
2.	Shri Saikat Paul	Scientific Officer (F)	37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 8,700/-
3.	Dr. (Smt.) Vaishali Naik	Scientific Officer (F)	37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 8,700/-

A. BANERJEE  
Administrative Officer-III

## RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 19th January 2010

No. RRCAT/2007-Admn/R-805(A)/99.—The President is pleased to appoint Dr. Avnish Kumar Sharma, Scientific Officer/E as Scientific Officer/F (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) from the forenoon of 31-12-2009 in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore.

R. P. ACHARYA  
Chief Administrative Officer

## NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 2nd January 2010

No. NFC/PAR-I/04/06/11.—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1111 dated 08-12-2009 the adhoc appointment of Shri M. K. Satyanarayana, Senior Clerk as Assistant Personnel Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 31-01-2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/14.—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1110 dated 08-12-2009 the adhoc appointment of Shri T. Varahala Raju, Senior Clerk as Assistant Personnel Officer on adhoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 31-01-2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/17.—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1109 dated 08-12-2009 the adhoc appointment of Shri R. Gema Naik, Upper Division Clerk as Assistant Personnel Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 09-02-2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

## ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 8th January 2010

No. AMD-51(39)/2005-Pen.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have relinquished the

charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	S/Shri/Smt. K. Prabhakara Rao, Assistant Accounts Officer	31/08/2009(AN)	Superannuation
2.	C.K. Ramachandran, Chief Administrative & Accounts Officer	30/09/2009(AN)	Superannuation
3.	Savita Rohatgi, Scientific Officer-G	31/10/2009(AN)	Superannuation
4.	K. B. Mohanty, Scientific Officer-D	30/11/2009(AN)	Superannuation
5.	Shri R.N. Gupta, Scientific Officer-E	31/12/2009(AN)	Superannuation

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative and Accounts Officer

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### O/O THE REGISTRAR OF COMPANIES, KERALA

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Integrated Premium Foods and Specialities Private  
Limited

Ernakulam-682021, the 14th January 2010

No. u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2010/00004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Integrated Premium Foods and Specialities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Srepadam Financing Company Private Limited

Ernakulam-682021, the 15th January 2010

No. 7427—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Srepadam Financing Company Private Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ITBG Systems Private Limited

Ernakulam-682021, the 15th January 2010

No. 18659—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ITBG Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deepa Finance Private Limited

Ernakulam-682021, the 15th January 2010

No. 8681—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deepa Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jayaraj Pipes Limited

Ernakulam-682021, the 15th January 2010

No. 13828—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayaraj Pipes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

#### O/O THE REGISTRAR OF COMPANIES, WEST BENGAL

Kolkata, the 14th January 2010

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/2009—Pursuant to sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the following five companies inadvertently sent for publication and published in Part-III Section-1 in the Gazette of India under Section 560(5) of the Companies Act, 1956.

The said following companies, being regular in filing of all statutory documents, are not meant for striking off under

Section 560(5) of the Act. So, the names of these companies are placed in the same position as if the name never been struck off.

Sl. No	Co. No.	Name of the company
1.	21-63914	M/s Khaitan Cold Storage Pvt. Ltd.
2.	21-70968	M/s Kamalpur Merchants Pvt. Ltd
3.	21-73968	M/s Triupati Mihika Trading Pvt. Ltd.
4.	21-31863	M/s Holding Center Pvt. Ltd.
5.	21-88155	M/s Agarwal Niket Pvt. Ltd.

HARIHARA SAHOO  
Asstt Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Cuttack-753001, the 18th January 2010

No. ROC/Sec. 560(3)/5674—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Company Name
01.	15-003161	M/s. Bhargav Pharmaceuticals Private Limited
02.	15-008436	M/s. Oasis Air Products Private Limited
03.	15-008768	M/s. Nilamadhab Consultancy Private Limited

B. MONANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Chennai-600006, the 18th January 2010

No. ROC/Chennai/Suo Moto/560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	14576	M/s. Thanjavur Plastics Private Limited
2.	14875	M/s. Saptagiri Housing Finance Limited

1	2	3
3.	13271	M/s. ACE Finished Leathers Private Limited
4.	13924	M/s. Navaneeya Mills Limited
5.	14319	M/s. Lakshmi Peanuts and Oils Private Limited
6.	14351	M/s. Gopikanna Chit Funds Private Limited
7.	14362	M/s. Sea Queen Fisheries Private Limited
8.	14365	M/s. Jay Dee Ess Chit Fund Private Limited
9.	14369	M/s. Jothi Electricals and Engineers Private Limited
10.	14372	M/s. Jeevan Finance and Gurantee (India) Limited
11.	14375	M/s. Leyden Capacitors Private Limited
12.	14389	M/s. Salabha Printers Private Limited
13.	14391	M/s. Ezhil Finance Private Limited
14.	14394	M/s. Integrated Computer Robotics Private Limited
15.	14401	M/s. Rise Constructions Private Limited
16.	14414	M/s. Thyahi Fisheries Private Limited
17.	14428	M/s. DeeJay Farms & Allied Products Private Limited
18.	14429	M/s. Indital Handequip Private Limited
19.	14436	M/s. Mariluk Seafoods Private Limited
20.	14438	M/s. Bay Pac Polymers Private Limited
21.	14442	M/s. Tusk Apparels Private Limited
22.	14443	M/s. Sri Vinayaka Powerlooms Private Limited
23.	14448	M/s. Nava Durgai Textile Industry Private Limited
24.	14456	M/s. Gulecha Garments Private Limited
25.	14475	M/s. Tabs Consultancy and Investments Private Limited
26.	14476	M/s. Oasis Freight Private Limited
27.	14477	M/s. Prompt and Economic Transports Services Private Limited

1	2	3
28.	14490	M/s. Southern Destinations Private Limited
29.	14498	M/s. Raja Carbides Private Limited
30.	14504	M/s. Bhuvanesh Agro Mills Private Limited
31.	14517	M/s. Educational Electronics Private Limited
32.	14519	M/s. Rani Mangammal Textiles Private Limited
33.	14543	M/s. Yesor Castings Private Limited
34.	14544	M/s. Ramnee Financial Services Private Limited
35.	14546	M/s. K. R. S. Chemicals Private Limited
36.	14551	M/s. Navigator Sea Food (India) Private Limited
37.	14556	M/s. Kurinji Paper and Boards Private Limited
38.	14559	M/s. Stallion Wood Industries Private Limited
39.	14560	M/s. F. M. Packages Private Limited
40.	14561	M/s. Parikshit Trawlers Private Limited
41.	14564	M/s. Olympus Trading & Construction Private Limited
42.	14579	M/s. Groupage Cargo Systems Private Limited
43.	14607	M/s. Southern Auto Glass and Allied Industries Limited
44.	14629	M/s. Weldon Fisheries Private Limited
45.	14632	M/s. Constance Chemicals Private Limited
46.	14640	M/s. Aarya Systems & Forms Private Limited
47.	14645	M/s. Guru Publications Private Limited
48.	14659	M/s. Krish Appliances Private Limited
49.	14661	M/s. Southern Cellulose Products Private Limited
50.	14667	M/s. Pioneer Shoes Private Limited
51.	14676	M/s. Vegavahini Investments Private Limited
52.	14683	M/s. Candy Burst Confectionery Private Limited

1	2	3
53.	14688	M/s. Salome Fishery Private Limited
54.	14694	M/s. Dhana Rekha Leasing Private Limited
55.	14696	M/s. Arul Annai Fisheries Private Limited
56.	14699	M/s. Bherdjete Marine Line Private Limited
57.	14701	M/s. Dev General Finance Private Limited
58.	14987	M/s. Arkkonam Aluminium Private Limited
59.	14997	M/s. J.G.K. Leather and Allied Products Private Limited
60.	19517	M/s. Stonewell Granites Private Limited
61.	24232	M/s. Nagamoney Finance and Leasing Company Limited
62.	25520	M/s. Viturati Exports Comapny Limited
63.	25562	M/s. Pandarish Finance Limited
64.	25648	M/s. Mahadevi Benefit Fund Limited
65.	25790	M/s. Safe Meditech Products India Limited
66.	27213	M/s. Achaya Benefit Finance Limited
67.	27795	M/s. Mamallan Benefit Fund Limited
68.	29547	M/s. Adheswara Finance and Investment Private Limited
69.	30176	M/s. Good Yield Benefit Fund Limited
70.	30177	M/s. Subra Benefit Fund Limited
71.	30178	M/s. Fortune Benefit Fund Limited
72.	30180	M/s. Subhikshha Benefit Fund Limited
73.	30756	M/s. Subra Securities Limited
74.	30837	M/s. Vailankanni Benefit Fund Limited
75.	31316	M/s. Subra Spincot Limited
76.	32225	M/s. Sangamalli Benefit Fund Limited
77.	32885	M/s. Kasi Benefit Fund Limited
78.	33414	M/s. Indian Heritage Homes Limited
79.	33422	M/s. Signature Benefit Fund Limited
80.	33769	M/s. Anil Transport Private Limited
81.	34923	M/s. Alraza Housing and Investments Limited
82.	35060	M/s. Jaya Varshini Properties Limited
83.	35215	M/s. M. J. Housing Private Limited
84.	35277	M/s. Acquatics Marketing Services Private Limited

1	2	3
85.	35392	M/s. Arya Nala Saswatha Benefit Fund Limited
86.	35464	M/s. Environ Care Biotech Limited
87.	35660	M/s. Kamban Benefit Fund Limited
88.	36352	M/s. Acacia Agro Tech Private Limited
89.	37385	M/s. Awwal Trading Associates Private Limited
90.	40000	M/s. Antla Flight Services Private Limited
91.	41488	M/s. Anusha Multimedia Services Private Limited
92.	41570	M/s. Adhikesav Financial Services Private Limited
93.	42062	M/s. Axis Medical Technologies Private Limited
94.	44109	M/s. Absolut-e Data Com Private Limited
95.	44807	M/s. Soft Valley Infotech Limited
96.	47284	M/s. Hansa Multilayer Pipes Limited
97.	48201	M/s. Access Detectives Private Limited
98.	49975	M/s. Annalakshmi Sweets and Spices Private Limited
99.	51229	M/s. ATX Info Technologies Private Limited
100.	52477	M/s. Abira Groceries Exports Private Limited
101.	52540	M/s. A.K. Projects & Consultancy Private Limited
102.	55672	M/s. Mahavishnu Music Records Private Limited
103.	58190	M/s. Anya Communications Private Limited

M. KANNAN  
Asstt. Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands

In the matter of Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Bangalore, the 21st January 2010

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies will be dissolved:—

S. No.	Company No.	Name of the Company
1.	37269	M/s. Source from Deckan Private Limited
2.	29146	M/s. MH Software Solutions Private Limited
3.	33746	M/s. Sree Raghavendra Carbons Private Limited
4.	15592	M/s. Radge Khanna Properties and Hospitality Services Limited
5.	18603	M/s. Shamanur Estates Private Limited
6.	44834	M/s. Zephyr Life Sciences Technologies Private Limited
7.	40668	M/s. Global Outsource Services Private Limited
8.	34201	M/s. Back Office Support Service Private Limited
9.	38066	M/s. Bridgetech Services Private Limited
10.	32173	M/s. Apropos Infotech Private Limited
11.	30875	M/s. Educational Opportunities India Private Limited
12.	41441	M/s. Plusmo Software Private Limited
13.	38369	M/s. ADC Telecommunications India Private Limited
14.	8267	M/s. Karnataka Plastronicom Private Limited
15.	36437	M/s. Rachel Engineering Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010